



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2005/फाल्गुन 23, 1926

No. 66]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2005/PHALGUNA 23, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2005

सं. 60/2004—2009

**विषय :** दिनांक 2-3-2002 को हस्ताक्षरित भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत कुछ मर्दों के आयात हेतु प्रक्रिया में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/001/ए एम 01/पी सी आई-क.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा 2-3-2002 को हस्ताक्षरित भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत कतिपय मर्दों के आयात हेतु प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 9/2002—2007 दिनांक 30-4-2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. सार्वजनिक सूचना संख्या 12/2004—2009 दिनांक 4-10-2004 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 हेतु वनस्पति वसा (वनस्पति) के 100,000 मीट्रिक टन वार्षिक कोटे का नेपाल से आयात करने के लिए 6-12-2004 से 5-3-2005 तक अनुमति दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के संबंध में नेपाल से भारत में टी आर क्यू वनस्पति के लिए आयात की वैधता अवधि को अब 5-6-2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 14th March, 2005

No. 60/2004—2009

**Subject : Procedure for import of certain items under the India-Nepal Treaty of Trade signed on 2-3-2002—Amendment therein.**

**F. No. 01/89/180/001/AM 01/PCI-A.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Public Notice No. 9/2002—2007 dated 30-4-2002 prescribing the procedure for import of certain items under the Indo-Nepal Treaty of Trade signed on 2-3-2002 :

1. Attention is invited to Public Notice No. 12/2004—2009 dated 4-10-2004 whereby the annual quota of 100,000 MTs of Vegetable Fats (Vanaspati) for the financial year 2004-2005 from Nepal was permitted for import from 6-12-2004 to 5-3-2005. It has now been decided to extend the validity period for TRQ vanaspati imports from Nepal into India in respect of the current financial year 2004-2005 upto 5-6-2005.

This issues in the Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.